2 कंपनी समाचार

खबरों में महिंदा ऐंड महिंदा

रहें स्टॉक 1,522,85 1,590 जनवरी 2018 से 3 फीसदी बढ़ेंगे दाम

ई-क्लर्क्स सर्विसेज

1,371.45 1,380 वृद्धकरीय मुद्दे पर वोर्ड 1,353.20 1,380 वृद्धकर 22 दिसंबर को 1,298.10 1,380 दिख्य 23 दिसंबर को 1,298.20 पिछला बंद भाव 1,353.20 3 आज का बंद भाव 4,424%

अदाणी एंटरप्राइजेज 195.50 15 153.55 15 154.75 15 154.75 वाद बदत के साथ बंद दुआ शेयर 154.75 रिप्पल बंद आव 154.75 अजल बंद आव

जेएमसी प्रोजेक्ट्स (इंडिया) 600.35 500 790 करोड़ रुपये के नए अगॉर्डर मिले

पंजाब नैशनल बैंक

नई दिल्ली | 19 दिसंबर 2017 मंगलवार विज़नेस स्टैंडर्ड

178.40 180 निफटी पीएसयू बँक 171.60 115 सूवकांक में सबसे अधिक पढ़ने वाला शेयर 171.60 पिछला बंद भाव 171.60 पिछला बंद भाव 171.60 पिछला बंद भाव 171.60 पीछला बंद भाव

संक्षेप में

पतरात संयंत्र हटाए जाने से एनटीपीसी की क्षमता घटी

मोक्ष ऑर्नामेंट्स आईपीओ की कर रही तैयारी

को क्से सहा तिपासि रणं आपूर्ण तिनात मोक्ष ऑनॉमेंट्स लिमिटेड को आर्रोभक सार्वजनिक पेत्रकार (आईपीओ) के जारिये 11.03 करोड़ रुपये जुटने को योजना है। कंपनों के प्रबंध पेत्रका अपूर्ण को छात्र ने तताया कि कंपनों का आर्रीओ 21 दिसंबर को युलकर दिसंबर को बंद होगा। उन्होंने वजाया कि इस सार्वजनिक निर्माम का उदेश्य कार्यशील पृंजी का उपयोग करता और कर्ज व मुद्दा व्यव में कमी लाता है। इस निर्माम मूल अर रुपये वत्र किया गया है। कंपनी में लित वर्ष 2017 में 259-93 करोड़ को आर अर्जील वर्ष है और कर पुकारे के बाद 2.87 करोड़ रुपये का लाभ कमाया। भागा

जेएसडब्ल्यू की बीआरपीएल में हिस्सेदारी

जेएसडब्ल्यु टेक्नो प्रोजेक्ट्स ने ओडिशा की ब्राह्मणी रिवर पेलेट्स में ली ४९ फीसदी हिस्सेदारी

मुबंह, 18 दिसंबर

राष्ट्रीय अपनी मीजूरगी बढ़ाने को प्रतिक्ष अपनी मीजूरगी बढ़ाने को एलांतिय सत्रोग बढ़ाने को एलांतिय सत्रोग बढ़ाने को एलांतिय सत्रोग बढ़ाने को एलांतिय सत्रोग बढ़ाने को स्पान के प्रतिकृत समुद्र ने अपने प्रवर्तक समुद्र नो कंपनो अदिस्त अपनी के प्रतिकृत सामुद्र ने अपने प्रवर्तक समुद्र नो कंपनो अदिस्त अपनी के मीजूर के सिंदे सत्रोग के अधिक है।

गैर-मुनीबद्ध कंपनो चेस्सा के स्त्रीक के अधिक है।

गैर-मुनीबद्ध कंपनो चेस्सा के स्त्रीक स्त्रीक के अधिक है।

गैर-मुनीबद्ध कंपनो चेस्सा के स्त्रीक स्त्रीक के अधिक है।

गैर-मुनीबद्ध कंपनो चेस्सा के स्त्रीक स्त्रीक स्त्रीक के अधिक है।

गैर-सुनीबद्ध कंपनो चेस्सा के स्त्रीक स्त्रीक स्त्रीक के अधिक है।

गैर-सुनीबद्ध कंपनो चेस्सा के स्त्रीक स्त्रीक स्त्रीक के अधिक के साथ एक स्त्रीक स्त्रीक के अधिक स्त्रीक स्त्रीक के स्त्रीक स्त्रीक स्त्रीक के स्त्रीक स्त्रीक के स्त्रीक के स्त्रीक स्त्रीक के स्त्रीक के स्त्रीक स्त्रीक के स्त्रीक करने के कारणों का स्त्रीक अधिक करने के कारणों का स्त्रीक के स्त्रीक करने के कारणों का स्त्रीक अधिक करने के कारणों का स्त्रीक करने के कारणों का स्त्रीक अधिक करने के कारणों का स्त्रीक स्त्रीक करने के कारणों का स्त्रीक के स्त्रीक करने के कारणों का स्त्रीक करने के कारणों का स्त्रीक स्त्रीक करने के कारणों का स्त्रीक करने के कारणों का स्त्रीक स्त्रीक करने के कारणों का स्त्रीक कारणों का स्त्रीक स्त्रीक स्त्रीक करने के कारणों का स्त्रीक स्त्रीक स्त्रीक करने कारणों का स्त्रीक स्त्रीक स्त्रीक स्त्रीक स्त्रीक कारणों का स्त्रीक स्त्री

अधिग्रहण सौदा



वाली 230 किलोमीटर लंबी स्लरी पाइपलाइन

मीजुद है।
दूसरी और, जेएसडब्ल्यू टेबनो प्रोजेब्द्स में मैनजेदेट परियोजना खंधन सेवाओं से जुड़ी कंपनी है। वह जिन सेवाओं को प्रेशकर करती है उनमें जिन से संबंधिय मामर्ती में एक सलाहकार के रूप में प्रवंधन परामर्ती में एक सलाहकार के रूप में प्रवंधन परामर्ती सेवा एक पार्विविधियों, संपन्त, प्रवंधन, जिस्तार या चाल् करना, लागन नियंत्रण और तकनीकी ज्ञान संबंधी योजना प्रामिस्त हैं। हालांकि वह लंबी अवधि के रणनीतिक नियंत्र संबंधी परिविधियों में में आर्जी हैं

जेएसडब्ल्यू टेक्नो
प्रोजेक्ट्स ने ओडिशा की
नाह्याणी रिगर पेलेट्स
(वीआरपीएल) में
खरीदारी हिस्सेदारी

■ समूह ने 1,000 करोड़ रुपये के सौदे के तहत बीआरपीएल में ली 49 फीसदी हिस्सेदारी

■ब्रोकरेज फर्मों ने कहा, प्रवर्तक कंपनी के जरिये हुआ यह सौदा एलसीएलटी प्रक्रिया के परिणाम आने के बाद ही

दिखाई थी। टाटा स्टील की बोली विफल रहने दिखाई थी। टाटा स्टील को बोली विफल रहते के बाद जेपस्तर कल्यू ने बीआरापिएस में यह हिस्सेसरी कराँती हैं। दिसंबर 2016 में बीआरपीएस में 100 फीसची हिस्सेदारी के अध्यक्षक के लिए टाटा स्टील का सीदा टूट गया था। कंपनी को लगा कि बीआरपीएस कि परिपंतित के कीर इसे हासिल करने के लार राणनीतिक हैं और इसे हासिल करने के बाद दसका संयंत्र कहाँ औषक प्रतिस्था हैं। बाएगा। हालांकि टाटा स्टील ने इसी साल अक्टूबर में इस सीदे मी फीड़ टर्ण भी और इसने भारतीय रिजर्ज बैंक से जरूरी निपासकों स्वित्र आरापतीय राजर्ज बैंक से जरूरी निपासकों

नी 49 फीसदी हिस्सेदारी
प्रवर्तन निदेशालय द्वारा प्रक्रिया पूरी करने और
आयकर विभाग से मंजूरी लेने में विक्रेता द्वारा
देरी किए जाने को प्रमुख कारण जारण के
अध्यक्षकल्य स्टीन और विकर्तन स्टील प्रेर पकर
तिर्माण से मंजूरी लेने में विक्रेता द्वारा
देरी किए जाने को प्रमुख कारण जारण के
आयक्षकल्य स्टीन और विकरत स्टील ग्रेड पक्षात्र की
आयक्षत्र विक्रुताको स्वामान्य वालो कंपनी
आयक्षत्र विक्रुताको स्वामान्य वालो कंपनी
मंजिल में प्रक्रित के सिल्पान्य सिल्पान्य विक्रा सिल्पान्य
परिस्तेण मार्डीनों एवं इंट्रम्टान विलामिट ने
बोआरापीएल में स्टिलान्य गिरिसार्ट ने
बोआरापीएल परिस्तेण को मंजिल के बीआरापीएल
परिस्तेण को से प्रकार को हिंदी के सिल्पान्य की
स्वित्र विलाम्य ने परवान विक्रार ने स्तरे सोचि
को संभावित व्यरोदारी से हो सकता है। एक
बाहि विलाम्य ने परवान विक्रार ने परवान की
स्वार्धित विलाम करने में परकल इति है तो कर एक वक्ष संस्त्र हाया मोणा। तव इस बोकारापीएल
परिस्तेण को प्रसादकल्य स्टीन से अलगा रको
का एक पानने होगा। तव इस बोकारापीएल
परिस्तेण को परवान विलाम वाली केपनी
वेएसहळ्यू समृह ने एससीएलटी में परिणाम पर निर्म करने में परवान विलाम वाली केपनी
वेएसहळ्यू समृह ने एससीएलटी में परीचारद से परिवर्गन परवान करने परवान विकर्तन के
स्वारत करने में एसपि एसटी में प्रचाव स्टा से स्टाल्य करने में पुण्य स्टील पुण्य स्टील पुण्य स्टील प्रवर्ण करने में पुण्य स्टील पुण्य स्टील पुण्य पारस प्राप्त करने में एसपि एसटी में पुण्य स्टील प्रवार करने में लिए विल्य ने नित्र प्रवर्ण के कंपनियों के साथ वाहरीत की है। इन तीनों कंपनियों में पुण्य स्टील पुण्य स्टील पुण्य करने कार्यों में पुण्य स्टील पुण्य स्टिल पुण्य करने साथ वाहरीत की है। इन तीनों क्रानियां करने वाहरी से पुण्य स्टील पुण्य स्टील पुण्य

किया अनुबंध

एजेंसियां

विभिन्न क्षेत्रों में कार्यवार करने वाली कंपनी अदाणी ने आंक कहा कि उसने लागा की अंक कहा कि उसने लागा की अंक कहा होंगे के साथ हैं कि अंक कहा उहने के साथ हैं 50 अंक खेलान के प्रक उहने के साथ हैं 50 अंक खेलान के एक अनुवंध रह कर दिया हैं 1 वह कर में एसे साथ में उठाया गया हैं कि जब एक सराहर एस्ट्रे ही व्यक्तिक कि सराहर एस्ट्रे ही व्यक्तिक कि सराहर होंगे हैं कि उस एक सराहर एस्ट्रे ही व्यक्तिक के एक सराहर एक्ट्रिया था। उहाजे में के मान्य यह विभावन एक्ट्रिया का प्रकर्म के एक्ट्रिय करानि के कि एस्ट्रे विभाव मं अस्ट्रिस्टियाई कंपनी को लक्ष्य वनानि के बाद सामने आया हैं। इंडानेर एस केंद्रीय क्वीसलंड में 16.5 अरख डॉटिंग की काराहर विभिन्न क्षेत्रों में कारोबार करने

16.5 अरब डॉलर की कारमाइल परियोजना छोड़ने का दबाव बनाया जा रहा था। दांवा किया जा रहा थ कि इससे ग्रेट वैरियर रीफ के कि इससे ग्रंट वीरायर राफ को नुकसान पहुंचेगा। अदाणी ने आब कहा कि वह परियोजना के लिए प्रतिबद्ध हैं और डाउनर के साथ अलगाव महज प्रबंधन में किया गया बदलाव हैं। उसने कहा कि यह कदम खर्च में कटीली के लिए उठाया गया है। उसने कहा कि अदाणी और डाउनेर सारे करार हरू कदने को लेकर सहमत हो गए हैं।

एचडीएफसी निजी नियोजन बॉन्ड

से जटाएगी 2,000 करोड रुपये

संपत्ति गिरवी रखकर ऋण देने वाली कंपनी एचडीएफसी की ऋण प्रतिभृतियां जाती कर निजी नियोजन के माध्यम से 2,000 करोड़ रुपये जुटने की योजना है। वंबई स्टीक एसमंत्रेज को दी जानकारी में कंपनी ने बताया कि 7,55 फीनदी एजडीएफसी, 20 फरवरी 2019 पुनाने योग्य गैर-परितर्नांग्व डिवंबर को निजी नियोजन के आधार पर जाये किया जाएगा। इसमें कहा गया है कि इस निर्मम का मकसद कंपनी के दीर्चकालीन संसाधन जुटना है। इस इस्यू से मितने वाली योज का इस्तेमाल निमम की आवास विज्ञ कार्याय की जरूरती के लिए किया जाएगा। इस्यू 20 दिस्तंबर को जुलना और उसी दिन वंद हो जाएगा। एनडीएफसी का शेयर आज 0.28 फीसदी गिरावट के साथ 1,718.10 रुप्ते पर क्षेत्र में उसी कार्या अन्तर के साथ 1,718.10



SATIN CREDITCARE NETWORK LIMITED

CORRIGENDUM OF EGM NOTICE TO THE MEMBERS

Dear Members

This Corrigentum is issued as a supplement to, and is in continuation the. Notice dated November 24, 2017 ("Notice") issued for convening Exemportary General Meeting of the members of Saint Creditions Network Limited to be held or "Indisky December 2, 2017 at 11, 102, AM Polices", 2017 at 11, 102, AM Polices, Copt. Docodranhan Bhavan, Near Connagith Flexe, New Dehi Deals 110001 for seeking your approval for matters contained in heat shorte. In this regard, following paragraph shall be inserted alter paragraph of the disclosure listed at point Y (Paga No. 15 of the Notice of Explanting Visitionent to the Notice in regard to literative, 23 and 100 at 100

scorrigendum is also available on the Company's website viz ww.satincreditcare.com and on stock exchanges website viz ww.bealada.com.and www.nseindla.com.

By order of the board of director For Satin Creditcare Network Limite

'चार साल में बदल जाएगा वाहन उद्योग'

रत में टाटा स्टील ने भी दिलचस्पी मंज़्रियां हासिल करने, फेमा कानून के तहत

महिंद्रा ऐंड महिंद्रा के प्रबंध निदेशक पवन गोयनका का कहना है कि भारत के वाहन उद्योग में इलेक्ट्रिक वाहत सांचा मोबिलिटी सस्त उत्सर्जन एवं सुरक्षा मानदंड के रूप में इस दशक के अंत तक लापक बदलाव आने वाला है। **शैली सेठ मोहिले** से बातचीत में गोयनका ने बताया कि महिंदा ऐंड महिंद्रा अपने प्रमुख स्पोट्सं यूटिलिटी व्हीकल श्रेणी में तगडी प्रतिस्पर्धा से निपटने के लिए क्या रणनीति बना रही



है - संभावित अवसर और एक हेज दोनों के लिहाज से। हम नहीं जानते कि साझा मोंचिलिटों से कमाई होंगी अथवा वह ओईएम (मूल उपकरण विनिम्मांजां) के साथ हो रहेगी। मूल उपकरण विनिम्मांजां के साथ होतियों पहले ही कर चुकी हैं। इसलिए हमें उसके लिए खुद को तैयार करने की जरूरत हैं।

महिंद्रा ऐंड महिंद्रा की क्या

खाद्य कंपनी के लाइसेंस की समीक्षा करेगा। विजनेस स्टेंडर्ड से बातचीत करने वाली खाद्य कंपनियों ने कहा कि एक ऐसे बाजार में खाद्य उत्पादों की वापसी की पूरी जिम्मेदारी कंपनियों के ऊपर जिममेदारी कंपनियों के कृपर द्वार ने जायलहारिक नहीं होंगा जहां सुद्धरा ज्यापर परिचम को तर संगठित नहीं हैं। कारिल तर संगठित नहीं हैं। कारिल हैंडिया के चेचारिक सीर्वाद जीधरी ने कहा, जिदरेग में अधिकतर दूदरा कारोबार संगठित हैं जबकि इसके विषयरीत भारत में बढ़ी तादाद में छोटे-मोटे स्टोर हैं। ऐसे में बाजार से उत्पादों की पूरी तरह वापसो सुनिश्चित करना कठित होगा! एफएसएसएआई ने खाख उत्पादों की बाजार से बापसी की

प्रक्रिया के तहत 10-सूत्री योजना तैयार की हैं। इसके प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं: वापसी के

वापसी नियमों से खाद्य कंपनियां परेशान



विवेट सुजन पिंटो मुंबई, 18 दिसंबर

खाद्य कंपनियों ने देश के शीर्ष खाय कंपनियाँ ने देश के शीर्ष खाय नियामक द्वारा निर्धारित खाय उत्पादों की वापसी संबंधी सानदंडों को लागू करने में असमर्थता जाती हैं । बाजार में यदि किसी डिव्यावंद हाय उत्पाद में कमी पाई जाती हैं तो संबंधित कंपनी द्वारा उसे बाजार से वापस मंगाने के लिए शीर्ष खाय मंगाने के लिए शीर्ष खाय नियामक द्वारा मानदंड निर्धारित किए गए हैं गिर्छले सहीन जाती इन मानदंडों में उत्पाद को बाजार से बापस मंगाने के प्रश्ति हों से वापस मंगाने के हिए तो स्वादा से से उसमें कहा गया है कि इस फकार को पोजनाएं तैयार करने और उन्हें लागू करने की प्राधीमक जिन्मोदारी कंपनियों को होगी। भारतीय खाय संरक्षा एवं मानक ग्राधिकरण

भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएएआई) ने कहा है कि वह केवल प्रक्रिया की निगरानी और दिशानिर्देशों के अनुसार समय-समय पर जांच करोग। नियामक ने यह भी कहा कि यदि उरपार्दों को वापसी का संबंध विनिमाण प्रक्रिया में गंभीर खाद्य कंपनी के लाइसेंस की स्मीका स्टेगा।

लिए एक प्रबंधन टीम तैयार करना, वापसी वाले उत्पादों के संबंध में विस्तृत जानकारी नितामक को देना, उपधोकाओं एवं अन्य हितधारकों को इस प्रक्रिया से अवच्या करना और यह सुनिश्चत करना कि पूरी मूल मुंखला से दोपयुक्त उत्पादों को हटा नित्या गया है। विस्त सीकेट नृहल्ल बनाने वाली कंपनी कंपिटल फुद्धन के प्रबंध नित्येक अजय शुमा ने कहा कि इन दिशानिंदेशों में कंपनियों के लिए एक व्यापक देवांचा उपलब्ध महीं कराया गया है जबकि किसी उत्पाद को वापस मांगों के लिए एक कहा, 'हालांकि आधुनिक व्यापार में कंपनियां अपने स्टॉक

व्यापा में कंपनियां अपने स्टॉक पर नजर रखती हैं लेकिन योंक एवं खुदरा जैनलों में आप इसे किस प्रकार लागू करें गे 2 वह एक बड़ा सवाल हैं। ' 'पारत में खाछ कंपनियों की 85 से 90 फीसदी बिक्री सामान्य व्यापा के जरिश होती हैं जबकि आधुनिक व्यापार से महज 10 से 15 'फीसदी बिक्री होती हैं। सामान्य व्यापार में विक्री के

ता कुल के ति कि कि ति के विकास के ति है।

सामान्य व्यापार में बिक्की के लिहाड़ से छोट़ मेट स्टोरों को योगदान उल्लेखनीय है। भारत के खुदरा कि मेट स्टोरों की अनुमानित संख्या कराँच 1 कि तह के सुदरा कि मेट के ति है।

भारत में खाड़ा परार्थों, पानी और हक को में कि तह को प्रतिक्रण करने वाली मुम्लु कंपनी इक्तिन के सुख्य में उत्पादों की वापसी के लिए खुद के निक्का करने के लिए कंपनियों में कि हिल को आयोगत करने से कंपनियों के ति हम को आयोगत करने से कंपनियों को पाना चल जाएगा कि सादारिक कामार्थी के दौरा करने के लिए कंपनियों को पाना चल जाएगा कि काआयोगत करने से कंपनियों के प्रति का आयोगत करने से कंपनियों के प्रति का आयोगत करने के लिए कंपनियों के प्रति करने के करने की करने के करनी में स्व इस्त करने कि स्ति भारत में अब तक के हिस्सी भी कंपनी ने ऐसा नहीं किसी भी कंपनी ने ऐसा नहीं किया है।'

बिज़नेस स्टैंडर्ड

बिद्धानी स्टेंडर्ड प्राइवेट दिसीटेंड के लिए फाराक एवं मुद्दक नंदन रिवंट रावत द्वारा द इंडियन एक्सप्रेस (प्रा.) शिमिटेंड, ए-८, रोक्टर-7, नोएडा, जीतम बुद्ध नगर-201301 3. प्र. शे मुद्दित एवं नेस्ट इत्यार, 4 बहुदुर शाह जफर मार्ग, नई विस्ती से प्रकाशित संपादक केलाश मीटिया

3. प. में मुक्ति एवं मेंदर प्रयान, बाहद त्या जवन मार्ग, वह दिखी से प्रकाशिय रायक किया मीता है दिखी से प्रकाशिय रायक किया मीता है। उस प्रकाशिय रायक मेंद्रावा मीता पर देशिय केया त्रावा है। देशियोग्द ना1-2372022-10 फिक्स 11-237202-10 फिक्स 11-23720-10 फिक्स 1

कोई हवाई अधिभार नहीं

NMDC Limited (A Govt. of India Enterprise) Donimalai Complex, PO Donimalai - 583 118, Taluk Sandur, Dist. Bellari, Kam

SI. No.	Tender No. & Date	Name of the Work	Estimated Cost (Rs. in lakhs)	EMD (Rs.)	Period of Completion (in months)	Date of Sale / Download of Tender Document / Viewed - From / To
1	No. CE/W/13/(532)/2016 Dated: 08-12-2017	Improvement of Fish, Mutton and Chicken Marketing area in Donimalai Township	19.97	19,980	6	19-12-2017 to 18-01-2018
2	No. CE/W/7/(253)/2017 Dated: 08-12-2017	Renovation of Guest House at Donimalai Complex	22.65	22,650	6	20-12-2017 to 19-01-2018
3	No. CE/W/13/(544)/2017 Dated: 08-12-2017	Construction of Security Cabin with boom barrier including divider of road from DRC to Ganesh Temple circle at Donimalai Township	34.35	34,400	6	22-12-2017 to 22-01-2018
4	No. CE/W/14/(46)/2016 Dated: 08-12-2017	De-Sludging / De-Silting of Oxidation Pond in Donimalai Township	20.65	20,600	02 (including Rainy Season)	26-12-2017 to 25-01-2018
5	No. CE/W/8/(411)/2017 Dated: 08-12-2017	Construction of BSNL Office at South Block and providing Platform with Semi-Permanent Shed for Cremation Ground at Donimalai	10.73	10,800	6	28-12-2017 to 29-01-2018
6	No. CE/W/1/(816)/2017 Dated: 08-12-2017	Annual Maintenance of Plants and Hiltop Building at KIOM for the year 2018-19	42.64	42,600	12 (including Rainy Season)	30-12-2017 to 29-01-2018
7	No. CE/W/10/(128)/2017 Dated: 08-12-2017	Construction of Internal CC Road in Ranjithpura and Vittal Nagar Village	20.92	20,928	6 (including Monsoon Period)	01-01-2018 to 30-01-2018

rocure.gov.in. nay contact, Jt. GM (Civil), by mailing to diomcivil@nmdc.co.in or by fax mee

sage to 08395-274644.

For and behalf of NMDC Ltd.

Jt. General Manager (Civil)

roject Office IT Department, Patel Estate, Near MTNL Building, Jogeshwari (E) , Mumbai- 400102

Dena Bank Requests For Proposal (RFP) for setting IT and related Infrastructure (LAN Cabling, FPSX, UPS, Desktops, Printers, Scanners, Audio Visual System) at GIFT City Gandhinagar (Tender Ref. Ho/ITD / 859 / 2017 Dated: 18/12/2017)

Dena hai to Bharosa hai.

MATERIAL HANDILNG &
MUSIE RESPING WORK &
- Finder (Trader Notice No. NI COVCKY-17-18-13 date of a
strength of the Covchy of the ansal Housing & Construction Ltd.

An ISO 9001-2015 Company
Reac Office: 606, 666 Floor, Indra Prakesh, 21, Barakhamba Road, New Dethi: 110 001
Websits: www.ansals.com.emil sectionaries con-0.11 Lst@piol.145016.com.

	Contral	1	nvestor	Relatio	ns Cell	3ank	
not tran	been received by the Sh sit/lost by the Shareho plicate share certificate.	y given that Equity Share Certificates of the Bank detailed below has by the Shareholders / Buyers as they appear to have been lost in post Shareholders / Buyers and the Bank has been requested to issu- strifficate. If objection is not received within fifteen days from the date- notice, the Bank will proceed to issue duplicate share certificates.					
put	dication of this notice, the	e Bank w	Il proceed	to issue o	duplicate sha	re certificates	
put SI.	Name of the		Certific			re certificates tive No.	No. of
SI. No.		Folio Folio					
SI. No.	Name of the	Folio	Certific	To	Distinc	tive No.	No. of
SI. No.	Name of the Shareholder Tatineni	Folio	From 836447	ate No. To 836456	Prom	To 417245500	No. of Shares

e-PROCUREMENT OPEN TENDER ENQUIRY
on Dock Shipbulders Limited, Mumbal, invites offer trough e-Procure
sprocuremed.mic.lin) under two-bid system. (Part-I) Technical bid with C
and Conditions, (Part-II) Price Bid, from eligible bidders for the tender as entabled.

MSE

METROPOLITAN STOCK EXCHANGE OF INDIA LTD.
th Floor, Vibgyor Towers, Plot No.C - 62, Opp. Trident Hotel, Bandra Kurla Comp

BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED
(A Government of India Undertaking)
भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (धारत सरकार का उपलप)
Remachandrapuram, Hyderabad 502032 Lead to the CAMPA CAMPA

PUBLIC NOTICE

SATIN CREDITCARE NETWORK LIMITED N CIN: L65991DL1990PLC041796
Regd. Office: 5° Floor, Kundsan Bhawan, Azadgur Commercial Complex, Delhi-110033
Corporate Office: Floor 1 & 3, Piot No -97, Sector-44, Gurugram, Haryana-122003, India Phase; 0124-4715400/4501499, Website: www.scinionsoftcare.com

CORRIGENDUM OF EGM NOTICE TO THE MEMBERS

Place : New Delhi Choudhary Runveer Krishanan
Date : December 18, 2017 Company Secretary & Compliance Officer

CAPITAL FIRST LIMITED
One Indiabulis Centre, Tower 2A & 28, 10° Floor.

CAPITAL
FIRST

CAPITAL

G CAPITAL
FIRST

Minute
(A Gov. of India Under

LINESS* and "ASIS WHAT IS BASIS."
The Date of Sale under Private Treaty is fixed for 84.01.2018 and the Reserve Pixed for the basis is Ro. 1,75.00,000-(Rupees One Core Seventy Pive Lac only). The Boroners and Colorours are interly cylled to pay the sun as mentioned indirect information droin in Rs. 1,178.7488 (Rupees One Cores Seventeen Lac Eighty Services Colorours and Cores of Cores Co

One Indiabatic Centre, Tower 2A A 28, 10 P Tool.
Seropal Baget Many, Lower Park, (West), March 400 015
FREST
CHAN L. LESTANGEARDS CLESTORS
CHAN L. LESTANGEARDS CLESTORS
PROVISIONS OF CREATER AND TOOL AND THE PROVISIONS OF CREATER AND TOOL AT PRIVATE TREATY
Wheness to Authorition Officer of Capatil Frield. Intel has biston the 2PCommission of Commission of Commission of the Securitation A Reconstitution of Commission of the Securitation A Reconstitution of Commission of Co

GOVERNMENT OF JHARKHAND OFFICE OF THE RESIDENT COMMISSIONER
JHARKHAND BHAWAN
KUSUMPUR PAHARI, VASANT VIHAR, NEW DELHI-57.

NOTICE.INVITING.TENDER

SEALED tenders are invited in prescribed form, from the reputed Taxi Operators for supply of taxies of various categories on a daily basis, for the use of Jhardhard Bhawan New Delhi. The detailed tender "Form" comprising instructions to the tenderers on technical bid, financial bid, aemset money deposit and other terms and conditions of the contract can be obtained from the office of the Resident Commissioner, Jhardhard Bhawan, New Delhi from date of publication on all working days during office house (Flone No. 26735000).

The pre-bidding scrutiny will be held on 10.1,2018 at 11.00 M at Jhardhard Bhawan, New Delhi. The sealed tenders shall be received at 115.1,2016 (Morday) 5.00 PM. All the received in the office of the Resident Commissioner, Jhardhard Bhawan, New Delhi. The financial bids will be opened on same day it. e. 16.1,2018.

Resident Commissioner reserves the right to reject any or all the tenders received either in full or in part, any time without notice.

or in part, any time without notice PR No: 175577(Cabinet)/17-18

KOTAK MAHINDRA BANK LTD.

MRINEE E.S. ALS SWATE SALSE "AND STATE STATE SALSE", principles of the progression of the minocrable property and project by the complete of the minocrable property and project of the project of the project of the minocrable property and project of the project of

UTTAR HARYANA BIJLI VITRAN NIGAM LIMITED
(A Government of Harvana Ilindertekine)

(A Government of Haryana Undertaking)
Registered Office: C-16, Vidyut Sadan, Sector-6, Panchkula, Haryana
Office of CEI PD&C, UHBVN, Panchkula
Ph.No.0172-2578469 Fax No.0172-2585710, Website: www.uhbvn.org.in
E-mail: competubbru@mail.com, CIN No.140199HR1999SGC034166

CORRIGENDUM

The due date of submission of tender cost, EMD, date of closing of e-ter

designed being the Authorized Officer of Magnia Housing Finance of above Corporate office under the 5 tion of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (hereinather referred as the "sail owers conferred under Section 15 (12) of the said Act tead with Rule for the Security Interest Enforcement of indice dated 15, 12,16 sent on 15, 12,16 calling upon the below Borrowers to epoly the amount mentioned may deal of the Security of the said notice.

n particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealing the charge of Magma Housing Finance for the amount and inferest thereon.

attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the AdJ, in respect of time available to the charge of the charge of the section of the charge of the charge of the charge of the AdJ in respect of time available.

PLACE: JODHPUR DATE: 19.12.2017

इलाहाबाद बैंक 🛕 ALLAHABAD BANK